

METAL COATINGS (INDIA) LTD.

Works II: 113, HSIIDC Indl. Estate, Sector-59, Faridabad-121 004 Phone: 09999972371, Fax: 0129-2307422



15th February, 2025

To, BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers 25th Floor, Dalai Street, Fort, Mumbai- 400 001

Sub.: Newspaper Advertisement of Un-audited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended 31st December, 2024

Ref.: Scrip Code - 531810; Scrip Id - METALCO; ISIN No. INE161E01014

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Part A of Schedule III and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of Newspaper advertisement published regarding the Un-audited Financial Results of the company for the Quarter and nine months ended 31st December, 2024 in the Newspaper 'Financial Express' (English) and 'Jansatta' (Hindi) dated 15th February, 2025.

This is for your information and record purposes.

Thanking you.

Yours faithfully,

For Metal Coatings (India) Limited

Vidushi Srivastava

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above

(Rs. In lakhs)

FINANCIAL EXPRESS



Place : Delhi

Date : 14.02.2025

JATALIA GLOBAL VENTURES LIMITED

(undergoing CIRP)
Regd. Office: 500, 5th Floor, ITL Twin Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, Dalhi North Delhi DL 110034 IN

	DADTIGUE ADD		luarter Ende	d	Nine Mon	ths Ended	Year Ender
S. No.	PARTICULARS	31.12.2924 Unaudited	31.12.2023 Unaudited	30.09.2024 Unaudited			31.03.2020 Audited
1	Total income from operations	5.26	4.85	- 5	5.26	4.85	6.28
2	Net profit/(loss.) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	4.45	-1.12	-0.24	4.20	-3.01	-19.44
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	4.45	-1.12	-0.24	4.20	3.01	-19.44
4	Net profit/(loss) for the period after Tax (After Exceptional and/or Extra ordinary Items)	4.45	-1.12	-0.24	4,29	-3.01	-19.44
5	Paid-up Equity Share Capital	1,497.56	1,497,58	1,497.56	1,497,58	1,497.56	1,497.56
6	Reserve excluding Revaluation Reserve	(2,040.86)	(1,700.54)	(2,045.31)	(2,040.86)	(1,700,54)	(1,717,26
7	Earning Per Share (Of Rs 10/- each share) (for continuing and discontinued operation) (a) Basic (b) Diluted	9.03	-0.01		0.03	-0.02	-0.13

(LODR), 2015. The full formats are available on Stock Exchange websites and on Company's website For Jatalia Global Ventures Limited Mohd Nazim Khan

Resolution Professional IBBI Reg. No.: IBBI/IPA-002/IPN00076/2017-18/10207 AFA Valid upto 31.12.2025 Address: MNK House, 9A/9, 10 East Patel Nagar, New Delhi-110008



METAL COATINGS (INDIA) LIMITED CIN : L74899DL1994PLC063387

Registered office: 912, Heinkunt Chambers, 68, Nehru Place, New Delhi-110019 Phone: 011-41808125, Website: www.mcil.net, Email: info@mciinda.net

Particulars	Quarter Ended 31.12.2024 (Un-audited)	Nine Months ended 31.12.2024 (Un-audited)	Quarter Ended 31.12.2023 (Un-audited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)
al Income from Operations t Profit/ (Loss) for the period	3901.65	11946.89	4213.49	16941.44
elore Tax, Exceptional and /or Extraordinary items) et Profiv (Lossi for the period before Tax	(75.90)	133.95	61.25	319.74
ofter Exceptional and / or Extraordinary (tems) let Profit/ (Loss) for the period after tax	(75.93)	133.85	61.25	319.74
fler Exceptional and / or Extraordinary Items) stal Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the	(52.78)	103.90	49.70	249.83
eriod after tax and Other Comprehensive Income after tax) guity Share Capital (Rs. 10 each)	(54.73) 732.68	98.05 732.68	48.29 732.68	268.73 732.68
teserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance theat of previous year (Other Equity) aminos Per Share (of Rs. 101- each) - Rs.			+0	3230.67
Basic Clubed	(0.72) (0.72)	1.42 1.42	0.68 0.68	3.41 3.41

The results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors at their respective meeting, held

on 14th. February, 2025. The statutory auditors of the company have carried out a Limited. Review of the Results for the quarter and nine months end-The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2024 are available on the Stock Exchange website at www.bseindia.com, the company's website at

www.moil.net and can also be accessed by scanning the QR code. Place : New Delhi Date: 14" February, 2025

Pramod Khandelwal (Managing Director) DIN: 00124082

Date: 14" February, 2025

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE. PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA

INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS")

PUBLIC ANNOUNCEMENT

Inn@vatiview



Code to view the Draft Red Herring Prospectus)

INNOVATIVIEW INDIA LIMITED

Innovatiview India Limited (our "Company" or the "Issuer") was originally incorporated as "Innovatiview India Private Limited", a private limited company in New Delhi, India under the provisions of the Companies Act, 2013 pursuant to a certificate of incorporation dated October 4, 2017 issued by the Central Registration Center on behalf of Registrar of Companies, Delhi and Haryana at New Delhi ("RoC"). Upon the conversion of our Company into a public limited company, pursuant to a resolution passed by our Board on May 20, 2024 and by our Shareholders' on May 27, 2024, the name of our Company was changed to "Innovatiview India Limited" and a fresh certificate of incorporation dated July 29, 2024 was issued by the RoC. For details in relation to the changes in the registered office of our Company, see "History and Certain Corporate" Matters - Changes in the registered office of our Company' on page 246 of the draft red herring prospectus dated February 13, 2025 ("DRHP"). Corporate Identity Number: U74999DL2017PLC324491

Registered Office: A Plot No. A-82, Block-A Naraina Industrial Area Phase 1, Landmark Jumma Park, South West Delhi 110 028, Delhi, India; Corporate Office: Plot No. 6. Tower C. 8th Floor, Tech Boulevard Sector 127, Noida 201 303, Ultar Pradesh, India

Contact Person: Anjali Singh, Company Secretary and Compliance Officer; Tel: + 91 95609 11131; E-mail: compliance@innovatiview.com; Website: www.innovatiview.com

PROMOTERS OF OUR COMPANY: ASHISH MITTAL, ANKIT AGARWAL, VISHAL MITTAL AND ABHISHEK AGARWAL

INITIAL PUBLIC OFFERING OF [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH ("EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE ("OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ 20,000.00 MILLION, COMPRISING AN OFFER FOR SALE OF [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH AGGREGATING UP TO ₹ 8,000.00 MILLION. BY ASHISH MITTAL, [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH AGGREGATING UP TO ₹ 8,000.00 MILLION BY ANKIT AGARWAL, [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH AGGREGATING UP TO ₹ 3,200.00 MILLION BY VISHAL MITTAL AND [...] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH AGGREGATING UP TO ₹ 800.00 MILLION BY ABHISHEK AGARWAL ("COLLECTIVELY THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS" AND SUCH INITIAL PUBLIC OFFERING THE "OFFER FOR SALE" OR THE "OFFER"). THE OFFER SHALL CONSTITUTE [•] % OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF [◆] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND ALL EDITIONS OF [.] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER, HINDI ALSO BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF NEW DELHI WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE STOCK EXCHANGES FOR UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES, IN ACCORDANCE WITH THE SEBI ICDR REGULATIONS.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Offer Period shall be extended for at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar unforeseen circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/ Offer Period for a minimum of one Working Day, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/ Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to Designated Intermediaries and Sponsor Bank(s), as applicable.

The Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the SCRR, read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Offer is being made through the Book Building Process in accordance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations wherein not more than 50% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to QIBs (the "QIB Portion"), provided that our Company in consultation with the BRLMs, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors and such allocation will be on a discretionary basis by our Company in consultation with the BRLMs, in accordance with the SEBI ICDR Regulations (the "Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the price at which allocation is made to Anchor Investors ("Anchor Investor Allocation Price"). In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (other than the Anchor Investor Portion) ("Net QIB Portion"). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, not less than 15% of the Offer shall be available for allocation to NIIs ("Non-Institutional Category") of which one-third of the Non-Institutional Category shall be available for allocation to Bidders with an application size of more than ₹ 200,000 and up to ₹ 1,000,000 and two-thirds of the Non-Institutional Category shall be available for allocation to Bidders with an application size of more than ₹ 1,000,000 and under-subscription in either of these two subcategories of Non-Institutional Category may be allocated to Bidders in the other sub-category of Non-Institutional Category in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, not less than 35% of the Offer shall be available for allocation to RIIs ("Retail Category"), in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. All Bidders (except Anchor Investors) shall mandatorily participate in this Offer only through the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process and shall provide details of their respective bank account (including UPLID (as defined in the DRHP) in case of UPI Bidders (as defined in the DRHP) in which the Bid Amount will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or the Sponsor Bank(s), as the case may be. Anchor Investors are not permitted to participate in the Anchor Investor Portion through the ASBA process. For details, see "Offer Procedure" on page 461 of the DRHP. This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Offer and has filed the DRHP dated February 13, 2025 with the SEBI and the Stock Exchanges on February 14, 2025. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI has been made available to the public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of such filing by hosting it on the website of the Company at www.innovatiview.com, website of the SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively and the websites of the BRLMs, i.e. DAM Capital Advisors Limited, ICICI Securities Limited, JM Financial Limited, Motifal Oswal Investment Advisors Limited and Shannon Advisors Private Limited at www.damcapital.in, www.icicisecurities.com, www.imfl.com, www.motifaloswalgroup.com and www.shannon.co.in, respectively. Our Company hereby invites members of the public to give comments on the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges with respect to disclosures made in the DRHP. The public is requested to send a copy of their comments to SEBI, the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs at their respective addresses mentioned below in relation to the Offer. All comments must be received by SEBI and/or our Company and/or the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs at their respective addresses mentioned below on or before 5.00 p.m. on the 21" day from the aforesaid date of filing of the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 44 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be taken after the Red Herring Prospectus ("RHP") has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such RHP as there may be material changes in the RHP from the DRHP. The Equity Shares, when offered through the RHP, are proposed to be listed on the mainboard of BSE and NSE. For details of the share capital, capital structure of our Company, the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares of our Company subscribed by them, please see the section titled "Capital Structure" beginning on page 96 of the DRHP. The liability of members of our Company is limited. For details of the main objects of our Company as contained in the Memorandum of Association, please see the section titled "History and Certain Corporate Matters" on page 246 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS

DAM
CAPITAL

DAM Capital Advisors Limited

Complex, Bandra (East), Mumbail

One BKC, Tower C, 15th Floor

Unit No. 1511, Bandra Kurla

400 051, Maharashtra, India

E-mail: il.ipo@damcapital.in

Investor grievance E-mail:

Website: www.damcapital.in

Chandresh Sharma/Puneet Agnihotri

complaint@damcapital.in

SEBI Registration No.:

Contact Person:

Tel: +91 22420 22500

ICICI Securities

ICICI Securities Limited

Sohail Puri/ Wincy Nadar

SEBI registration no.: INM000011179

A JM FINANCIAL



ICICI Venture House 7th Floor, Cnergy Appasaheb Marathe Marg Prabhadevi, Mumbai 400 025 Maharashtra, India Maharashtra, India Tel: +91 22680 77100 Tel: +91 22663 03030 E-mail: iil ipo @icicisecurities.com E-mail: ill ipo@imfl.com Investor grievance e-mail: customercare@icicisecurities.com Website: www.icicisecurities.com Website: www.jmfl.com Contact person:

JM Financial Limited Appasaheb Marathe Marq Prabhadevi, Mumbai 400 025 Investor grievance e-mail: grievance.ibd@jmfl.com Contact person: Prachee Dhuri SEBI Registration No.:

INM000010361

Motilal Oswal Investment Advisors Limited 10th Floor, Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Savani Road, Opposite Parel ST Depot Prabhadevi, Mumbai 400 025 Maharashtra, India Tel: +91 22719 34380 E-mail: il.ipo@motialoswal.com Investor grievance e-mail: moiaplredressal@motilaloswal.com

Website:www.motilaloswalgroup.com

SEBI registration no.: INM000011005

Kunal Thakkar/ Sankita Ajinkya

Contact person:

Shannon Advisors Private Limited Office No. 902, 9th Floor New Delhi House, Barakhamba Road Connaught Place, New Delhi 110 001 Delhi, India Tel: + 91 11427 58011 E-mail: ill.ipo@shannon.co.in Investor grievance e-mail: grievance@shannon.co.in Website: www.shannon.co.in

Rishu Goval / Pavan Kumar Agrawal

SEBI registration no.: INM000013174

Contact person:

REGISTRAR TO THE OFFER



MB/INM000011336

MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited)

MUFG C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg Vikhroli (West), Mumbai 400 083, Maharashtra, India, Tel: +91 81081 14949, E-mail: Innovatiview.jpo@linkintme.co.in Investor grievance e-mail: Innovatiview.ipo @linkintime.co.in, Website: www.linkintime.co.in, Contact person: Shanti Gopalkrishnan, SEBI Registration No.: INR000004058

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Anjali Singh, Company Secretary and Compliance Officer; Tel: + 91 95609 11131; E-mail: compliance@innovatiview.com; Website: www.innovatiview.com

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For Innovatiview India Limited On behalf of the Board of Directors

Place: New Delhi Date: February 14, 2025

Anjali Singh Company Secretary and Compliance Officer

Innovatiview India Limited is proposing, subject to, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public issuance of its Equity Shares and has filed the DRHP dated February 13, 2025 with SEBI and the Stock Exchanges on February 14, 2025. The DRHP shall be available on the website of the Company at www.innovatiview.com, SEBI at www.sebi.gov.in, as well as on the websites of the BRLMs, i.e. DAM Capital Advisors Limited, ICICI Securities Limited, JM Financial Limited, Motilal Oswal Investment Advisors Limited and Shannon Advisors Private Limited at www.damcapital.in, www.icicisecurities. com, www.jmfl.com, www.motilaloswalgroup.com and www.shannon.co.in, respectively and the websites of National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com, respectively. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" beginning on page 44 of the DRHP. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see "Risk Factors" of the RHP, when available.

The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("U.S. Securities Act"), or any state securities laws in the United States, and unless so registered may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, such Equity Shares are being offered and sold (i) outside of the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur; and (ii) within the United States to "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act), pursuant to the private placement exemption set out in Section 4(a) of the U.S. Securities Act.

Kohinoor Foods Ltd.

Regd./Corporate Office: Pinnacle Business Tower, 10" Floor, Shooting Range Road, Suraj Kund, Faridabad, Haryana-121001, Ph. No. 0129-4242222, Fax No. 0129-4242233 E-Mail: info@kohinoorfoods.in, Visit us at: www.kohinoorfoods.in, CIN - L52110HR1989PLC070351

			Standalon	0	C	onsolidate	d
SI.	Particulars	Quarte	Ended	Year Ended	Quarter	Ended	Year Ender
No.	Particulars	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024
		Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations (net)	2010	2327	9573	2010	2327	9573
2	Net Profit I (Loss) for the period (before Tax.	No.	99.0	3550	- Sec.	1	Discourse
22	Exceptional and/or Extraordinary items)	-829	-39	-886	-830	-39	-888
3	Net Profit I (Loss) for the period before tax (after	79855	2000	248	5886	11,5500	200
	Exceptional and/or Extraordinary items)	~829	-46	-894	-830	-46	-897
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after	50000	888	15285	75.53	1221	723
	Exceptional and/or Extraordinary items)	-829	-46	-453	-830	-46	-455
5	Total Comprehensive Income for the period						
	[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)	2000	-46	100	1226	10000	707
	and Other Comprehensive Income (after tax)]	-829		-468	-830	-46	-471
6	Equity Share Capital (face value of Rs. 10/-each)	3707	3707	3707	3707	3707	3707
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)			255729			
	1. Basic:	-2.24	-0.13	-1.26	-2.24	-0.13	-1.27
	2. Diluted:	-2.24	-0.13	-1.26	-2.24	-0.13	-1.27

Quarter ended on 31" December, 2024 are available on the BSE Limited (BSE) website (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (NSE) website (www.nseindia.com) and on the Company's website (www.kohinoorfoods.in). For Kohinoor Foods Ltd. (Satnam Arora) Place: Faridabad Jt. Managing Director (DIN:00010667)

Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the

(Formerly Think Ink Studio Limited)

THINKINK PICTUREZ LIMITED

CIN: L22300MH2008PLC181234 Regd. Off.: A-206, Eversun CHS Ltd, Sahakar Nagar, J P Road, Andhen (West) Mumbai - 400053. Maharashtra, India; E-mail: kiha@thinkinkpicturez.com EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024

Quarter For the ended on ended on ended on ended on ended on previous year ended on **PARTICULARS** 30.09.2024 31.03.2024 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023 Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Unaudited) Total income from operations 171.5 117.25 225.04 388.75 1051.68 Net Profit / (Loss) for the period 126.53 64.42 207.72 347.24 134.99 517.49 (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period 126.53 64.42 134.99 207.72 517.49 347.24 before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 150.28 Net Profit/(Loss) for the period 46.18 94.44 375.48 251.09 91.69 after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for 94.44 150.28 375.46 251.09 the period [Comprising Profit/ (loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax) 4740.48 4740.48 Equity Share Capital 1481.40 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations)

NOTE:

Diluted:

Place: Ahmedabad

Date: 14th february, 2025

 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock. Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full Format of the financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company website (www.)

The result of the Quarter ended on 31st December, 2024 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Director at its meeting held on 14th february, 2025.

0.03

0.32

0.32

3. Limited Review Report has been carried out by the Statutory Auditors for the above period.

4. The figures are regrouped in previous year also, wherever considered necessary, to make them comparable

0.02

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS For Thinkink Picturez Limited Sdi- Vijay Pujara MANAGING DIRECTOR

Months

ended

0.03

1.26

1.26

Previous

Year

Ended

1.64

Months

ended

BONLON INDUSTRIES LIMITED

Quarter

ended

Regd. Office: 7A/39 (12-F.F.), W.E.A. Channa Market, Karol Bagh, New Delhi - 110005 Website: www.bonlonindustries.com, E-mail: cs@bonlonindustries.com, Tel: 011-47532792 Fax: 011-47532798

ended

ended

Extract of Standalone Un-Audited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2024 (₹ in Lakhs except per share data

Particulars

1000		31.12.2024	30.09,2024	31,12,2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024
		(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	13,838.14	20,465,28	9,262.84	47,701.88	31,284.37	43,148.60
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	126.85	62.54	92.56	303.69	202.02	311.23
3	Net Profit(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	126.85	62,54	92.56	303.69	202.02	311.23
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	94.16	46.88	69.04	226.40	150.75	232.88
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	94.16	46.88	69.04	226.40	150.75	232.88
6	Equity Share Capital	1,418.34	1,418.34	1,418.34	1,418.34	1,418.34	1,418.34
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)			A			6479,17
8	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-						

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of guarter/year ended standaione financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of these financial results are available on the stock exchange websites. (URL- www.bseindia.com) and also on website of the Company-www.bonlonindustries.com

0.66

0.66

0.33

0.33

For and on behalf of the Board of Directors For BONLON INDUSTRIES LIMITED

1.60

1.60

0.49

0.49

Place: New Delhi Date : 14.02.2025

(b) Diluted (in ₹)

Place: New Delhi

SI.

(a) Basic (in ₹)

(b) Diluted (in ₹)

ARUN KUMAR JAIN MANAGING DIRECTOR DIN -00438324

Months

Extract of Consolidated Un-Audited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2024 (₹ in Lakhs except per share data) Previous Quarter Quarter Quarter

No.	Particulars	31.12.2024 (Un-Audited)	30.09.2024 (Un-Audited)	31.12.2023 (Un-Audited)	31.12.2024 (Un-Audited)	31.12.2023 (Un-Audited)	31.03.2024 (Audited)	
1	Total Income from Operations	13,838.14	20,465.28	9,262.84	47,701.88	31,284.37	43,148.60	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	126.85	62.54	92.56	303,69	202.02	311.23	
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	126.85	62.54	92.56	303,69	202,02	311.23	
4	Net Profit(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	94.16	45.88	69.04	226.40	150.75	232.88	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	94.16	46.88	69.04	226.40	150.75	232.88	
6	Equity Share Capital	1,418.34	1,418.34	1,418.34	1,418.34	1,418.34	1,418.34	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balanca Sheet of the previous year)	6479:17						
8	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations)- (a) Basic (in ₹)	0.66	0.33	0.49	1.60	1.06	1.64	

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of guarter/year ended consolidated financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of these financial results are available on the stock exchange websites. (URL- www.bseindia.com) and also on website of the Company-www.bonlonindustries.com

0.33

SCAN for Complete Financial Results

New Delhi



For and on behalf of the Board of Directors For BONLON INDUSTRIES LIMITED

1.60

0.49

ARUN KUMAR JAIN MANAGING DIRECTOR DIN-00438324

1.06

1.64



Adfactors

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड माँग सचना (पूर्व का पुरावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) सरफैसी अधिनियम, 2002 की धार esz, eटा सल, जीसे वन आईटी पार्क, क्रम सं. 7971, घोरपड़ी, मुखवा रोड, पुणे का 1000 15(2) को अधीन आप निर्मानिखित कर्जंदारी/राज-कर्जदारी/क्यानीतर्थे ने गुड़म हाउसिंग फाइनेंस निर्मिटेड (यहने युनायाना हाउसिंग फाइनेंस निर्मिटेड के नाम से जाना जात था. 17 नवंबर 2023 से युनायाना हाउसिंग

फाइनेंस लिपिटेड का नाम बदलकर गृहम हार्टामंग फाइनेंस लिपिटेड हो गया (पहले इसे मैग्म हार्डीमंग फाइनेंस लिपिटेड के नाम से जाना जाना था और मूल रूप से जीई मनी हार्टीमंग फाइनेंस परिलक्त अमीर्गिम्टेड कंपनी के नाम से सिर्मात किया गया था) (इसके पत्रकात 'प्रतिभूत लेनदार' सन्दर्भित) से अपनी अचल सम्मति यें को गिरवी रखकर गृह ऋण सम्मति के विरुद्ध ऋण प्राप्त किया। आपने इसके पुरर्भुगतान में युक्त की है और इसलिए आपका ऋष गैर-निष्पादन चरित्रम्यतियों के रूप में पर्योक्षत किया गया है। चकाया देनदारी की बयुली तेतु विशोध परित्रम्यति के अतिशृतिकरण एवं पुतर्निर्माण तथा प्रतिपृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 भी धारा 13(2) के अधीन एक माँग सुनान आपके अनिम सत गते पर भेजी गयी किन्तु गत अनवार्ण जावम कर दी गर्मे । अस. उसकी विकास सामार्थ प्रतिपृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के राज्य पठित नियम 3(1) की पाश 13(2) के अनुसार वैकल्पिक मार्च के रूप में प्रकाशित की जा रही है। कर्जदारों, सह-कर्जदारों, मार्टेटरों, प्रतिभूतियों, प्रकारण देनदारियों, का विवाण धारा 13(2) के अभीन भीग सुधना भेजी गये भीग सुधना तथा उसमें दावाबृत तरित का विवाण निम्नतिश्वित है :

क.	कर्जदार, सह-कर्जदार, गारेटा का संपत्ति कह विद्याण		मीय स्वय की विक्र	मींग सूचना में गरिए (४८)
14. 1	जान तथा अस्य गात जानेंद्र कुनार, सुरेश सुरेश ऋया गाँवर, क.10,00,000/- अस्य गाँवरा अस्य गाँवरा 1.A.P06052000000005033968	खामरा संख्या 367मी में एक आवासीय सकान का समस्त भाग, भूमि क्षेत्र माप 282.23 वर्ग मीटर, आबादी गांव शंतरपुर केंद्रज में शिवत, परगता वरनाया, तहस्यीत चहीत एवं जिला काण्यत सीमाए: पूर्व: विनीली अमीनगर सराय मार्ग, पश्चिम: धर्मधीर का यर, उत्तर: देवेंद्र का पर, दक्षिण: सतेंद्र का घर	04-02-2025	8.10,36,2287- (अपने दस लाख अड्डसेस स्वार दो भी अड्डाईस मात्र) 15.35% प्रति वर्ष की दर से असिरिक स्वान संदित पुरर्श्वनार तक
2	भीतम कुमार, अमीता कुमारी ऋण राणि क 1030000- ऋग ग्रेडवा HL,00399100000005002791	अभीता खुभारी वर्ग गज याचे 80.26 वर्ग मीटर, खासग संख्या 1307 मिन में से, गांव लोगी, परगना एवं तहसील क्रम संख्या: क्रम संख्या: क्रम संख्या: क्रम संख्या:		र.31,26,1267- (रुपये ग्यास्ट सारा छल्मीम हजार एक स्त्रे छल्मीस बाव) 10,0% प्रति वर्ष की दर से अतिरेक्त क्याज सहित पुनर्भुगतान तक
3	सहार नगर, ज्योत देवी, सुनीत देवी ऋग मंत्रिः ४.15,70,010/- ऋग संख्याः LAP0659200000005923192	फ्रोहोस्ड आवासीय घर का समस्त भाग, भाष 330 वर्ग गज वानी 275.91 वर्ग मीटर, खसरा नंधर 256मी और 257मी में से, दाहपुर गांव में रिचत, परणना दनकौर, तहसील एवं जिला गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश (बाद में उक्त संबंधि से संदर्भित) सीमार्ट द्वापट के अनुसार पूर्व सहक 16 फीट, पश्चिम प्लॉट का भाग, उत्तर राजवंद की संबंति, दक्षिणः गर्ज की संबंधि।	06-02-2025	र.17,26,2547- (रुपये संत्रह लाख छम्बीस हजार दो सी चीतीस यात) 15,35% प्रति वर्ष की दर सं अवित्ति क्याज सहित पुनर्भुगतान दक्त
4	चितित कुमार, महेदी, सहल मोटला, वर्नीपा ऋग गीत: ह.18,80,010/- ऋग मेख्या 1.AP030300000005008776	आवासीय खाली प्लांट का समस्त सम माप 231.08 घर्ग गत्र (213.21 वर्ग मीटर) सेहल्ल दबलपुरम वार्ड नंबर 5 में शिथत, खराग नंबर 845 कारवा और परगना खतेली तहातील जानसट जिला मुजफ्फरनगर (3.9.) (बाद में उक्त संपंति से संदर्भित) 05.01.2003 को पंजीकृत विक्री विलेख के अनुसार सीमाएं पूर्व: 18 वादट रोड, पश्चिम: अनिल कुमार शर्म का प्लांट, उत्तर: विक्रेता का प्लांट, दक्षिण: सुमिता त्यांगी का प्लांट माप क्षेत्र:- 231.08 वर्ग गज।	06-02-2025	र.20,96,858/- (रुपये बीस लाख छियानचे हजार आठ सी अप्रायन गाज) 15.85% प्रति प्रयं की दर से अवितिक स्थाज सहित युनभूषतान तक
5	बरेश कुमार, सुरेखा ऋग गांकि कं.7.75,000/- ऋग गंकवा LAP0605200000005006543	प्लॉट नंबर 75 पर निर्मित एक आदासीय मकान नंबर 28/2 का सभी भाग, भूमि क्षेत्र माप 41,805 वर्ग मोटर, मोहल्प्त भोम नगर हस्तिनापुर, परगना हस्तिनापुर, तहसील मदाना एवं जिला मेरठ में स्थित ग्रीनार्ग, पूर्व: 15 फोट/जगनाल का घर, पश्चिम: 15 फीट/सहक लगभग 9 मोटर चौड़ी, वजर: 30 फीट/प्रदीप का प्लॉट, दक्षिण: 30 फीट/दिकेला के प्लॉट का भाग। भूमि क्षेत्र माप: 41,805 वर्ग मीटर।	06-22-3025	र.१.०२,694/- (रुपए वी लाख छह भी चीरानचे मात्र) 15.85% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्ष ज्यान संहित पुनर्भुगतान तक
6	फलेड जीत सिंह, सीनदा कीत स्था गरित २,5,47,886,	निर्मित संपत्ति गंदन्य 55 का समस्त भाग, क्षेत्रफल माप 100 वर्ण गढ़, (अवकार 15'x00),मुस्ततिस संबर 9, स्वसरा संबर 1/2 में से, रुवाला गांव के क्षेत्र में स्थित, दिल्ली राज्य दिल्ली कलिने जिसे बॉर्थ ब्लॉफ, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली के नाम से जाना जाता है, डक संपत्ति के तहर चूमि के प्री	64-02-3025	5.7,58,376/- (रुपए सात लाख अट्टावन हजार जीन सी विद्यतर नाम) 20,38% प्रति वर्ष करि

अतः आप कर्जदार/में तथा सह-कर्जदार/में/जमानतियों को उपयुक्त भौग की गयी गणि एवं उपयुक्त ब्याज सहित सम्पूर्ण गणि को इस सुवना के 60 दिनों के भीतर जमा करने के लए कहा जाता है तिसमें आरफल रहने पर अधोहरुवाक्षरी उपर्युक्त प्रतिभृति/चो के प्रकर्तन के लिए अधिनियमानुसार कार्यचाही करने के लिए बाध्य होगा। कृपया ध्यान ऑपनिका की धार 13(13) के अनुसार आप उपर्युक्त इंगित प्रतिभृतियों को विकास पड़े अथवा अन्य मध्यम से हमारी सहमति के बिना हस्तानारित नहीं कर सकते।

होल्ड अधिकार के साथ सीमाएँ: पूर्व: फ्लॉट नंबर 56, पश्चिम: फ्लॉट नंबर 54, दक्षिण: सड़क 10

निर्मितः संपत्ति गोरुमा एस-१८ का समस्त माग, भूमि मार 200 वर्ग गाउ (30'x60')

अजय एन्क्लेय, नजफगढ़ रोड, गांव विद्याह, दिल्ली के क्षेत्र में दिखत है

वीबाएं:- पूर्वः सद्दकः, उत्तरः प्लॉट संख्या एव-17, पश्चिमः एसःलेन 15',

स्थान : दिस्ली इस्ता./- अधिकृत प्राधिकारी fills = 15.02.3025 गृहम हात्रसिंग काइनेस निविदेह (पूर्व का पुनावाना हात्रसिंग काइनेस निविदेह

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

(कंपनी (निगमीकरण) नियमावली 2014 के नियम 30 के अनुपालन में) एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन हेत् समाचारपत्र में प्रकाशित किया जानेवाला विज्ञापन

> वेंद्रीय शासन, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समग्र

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमीकरण) नियमावली 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के उपवाक्य (ए) के प्रकरण में

> एको अरहावल्डी एक्सप्रेसचे प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में, जिसका पंजीकृत कार्यालय : बी-9, विमृति खण्ड, गोमती नगर लखनक-226010, उत्तर प्रदेश में विश्वत है।

....याचिकादात्री एतदहारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की सारा 13 के अंतर्गत कॅंद्रीय शासन के पास एक आवेदन करने का प्रस्ताव रखती हैं, जिसमें सोमवार 20 जनवरी 2025 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के निबंधनों के अनुसार कंपनी के संस्था के ज्ञापन के परिवर्तन के पृष्टिकरण की इच्छा प्रकट की गई है. ताकि कंपनी, अपने पंजीकृत कार्यालय को "उत्तर प्रदेश के राज्य" से "महाराष्ट्र के राज्य" में परिवर्तित करने में समर्थ हो सके।

कोई श्री व्यक्ति, जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तायित परिवर्तन द्वारा संभवतः प्रभावित हो सकता है, वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौयह (14) दिवसों की समयावधि के अंवर, अपने हित की प्रकृति और वेरोध के आधारों का उल्लेखन करनेवाले एक शपक्षपत्र द्वारा अनुसमर्थित अपनी आपत्ति/याँ को या तो एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर एक निवेशक शिकायत प्रपन्न के माध्यम से अथवा मुल प्रति को 'क्षेत्रीय निदेशक के पते : "बी-2 रुकंच, द्वितीय तल, पण्डित दीनदखल अंत्योदय भवन, द्वितीय तल, सीजीओं कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003" को सींप दे या प्रेषित कर दे अधवा स्वयं जाकर दे आये अथ्या इस पते पर पंजीकृत डाक द्वार प्रेषित कर दे। साथ ही इस सूचना की एक प्रति, आयेदक कंपनी को निम्न वर्णित पतं पर रिधत इसके पंजीकृत कार्यालय को भी ग्रेषित कर दे :

पंजीकृत कार्याल्य का पता : बी-9, विभृति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ- 226010, उत्तर प्रदेश

एको अरमावली एक्सप्रेसवे प्राह्वेट लिबिटेड हेत् तथा उसकी ओर से

प्रशांत कुमार विजॉक: 15/02/2025 निवेहाक डी माईएन : 10211283 खान : लखनक

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED (Formerly Fullerton India Credit Company Limited) कॉपॅरिट कार्यालवः १०वीं मंजिल, कार्यालय संख्या १०१,१०२ और १०३. २ नॉर्थ

एवेन्यू, मेकर मैंविसटी, बांडा कुर्ला कॉम्लेक्स, बांडा (ई), मुंबई — 400051। कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

जबकि नीचे हस्ताक्षरकर्ता एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फूलर्टन इंडिया क्रेडिट **कंपनी लिमिटेड)** के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वितीय आस्ति का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 15.02.2022 को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें ऋण खाता संख्या 173001310043258 के अंतर्गत उधारकर्ताओं **जोगिंदर कुमार, रवि कांत, रोहित कुमार, तोहफा कलेक्शन, पुष्पा होती, मीना** कपुर ओम संस और आर केंड्रम्पेक्स को नोटिस में चिल्लिखित राशि रु. 1,78,95,355/- (रुपये एक करोड़ अठहत्तर लाख पंचानने हजार तीन सौ पचपन मात्र) उत्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

तथारकर्ता द्वारा राशि वापस न किए जाने के कारण, उधारकर्ता तथा आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की घारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ इस 13 फरवरी 2025 को नीचे वर्णित संपत्ति का मौतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता तथा आम जनता को इस संपत्ति से लेन-देन न करने की बंतावनी दी जाती

है तथा संपत्ति से किया गया कोई भी लेन-देन एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड) के अधीन होगा, जिसकी राशि 1,78,95,355/- रुपए (एक करोड़ अड़ावन लाख पचानवे डजार तीन सौ पचपन मात्र) होगी, तथा उस पर वास्तविक वस्त्री तक अतिरिक्त ब्याज भी देय होगा।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (a) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपतियों को नुनाने वो लिए उपलब्ध समग्र के संबंध में है।

अचल संपत्ति का विवरणः संपत्ति संख्या 182 और 183, जिसमें गाउंड फ्लोर पर दो इकार्ने हैं, निजी नंबर 3 और 4 का क्षेत्रफल 60 वर्ग गज है, साथ ही संपत्ति का पश्चिमी भाग जिसमें पहली मंजिल पर 50 वर्ग गज का एक हॉल है, वार्ड नंबर XIII, गली रुई वाली, तेलीवाडा, दिली-110006 में स्थित है।

ख्यानः दिल्ली दिनांकः 15.02.2025 इस्ता/-, प्राविकृत अधिकारी एसएमएकजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड)

मेटल कोटिंग्स (इंडिया) लिमिटेड CIN: L74899DL1994PLC063387 पंजीकृत कार्यालय : 912, हेमकुंट चेम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 फोन : 011-41808125, वेबसाइट : www.mcli.net ईमेल : info@mclindia-net 31.12.2024 को समान्त तिमाही और नौमाही के लिए असंपरीवित वितीय परिणामों का सारांश 31.12.2024 को 31.12.2024 को 31.12.2023 को वर्ष समाप्त समाप्त तिवाही | सवाप्त नीबाही | समाप्त तिवाही 31.03.2024 (ब लेखा परीक्षित) (ब लेखा परीक्षित) (ब लेखा परीक्षित) (ले स्थापरी दिवत) 10041.44 अवित्र के लिए कुछ लाग / (हानि) (यह. जसाधारण और / या असाधारण मध्ये से पहले (75.93) 31974 133.85 61.25 कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और / या असाधारण मदों के बाद) (75.93) 133.85 60.25 319.74 कर के बाद की अवधि के तिए गुद्ध (गाम/(हाणि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद) 103.90 49.70 249.83 कर के बाद की अवधि के लिए कुल व्यानक आय (लान/(हानि) शहित) कर के बाद अन्य व्यापक आप) (54.73) 48.29 268.73 इंक्विटी शेयर पूंजी (10 रूपये प्रार्थक) 712.68 732.68 732.68 732.68 आखित (पुनर्यूनाकन आवंतिर को भोडकर) जैसा कि पिछले वर्ष की बेखापरीसित बेलेस बीट में विधाया गया है (अन्य इक्विटी) 3230-67 प्रति संघर आय (10 स्पर्ध प्रत्येक) - सं, (0.72)1.42 0.68 1,42 0.68 ै ३१ मार्च, २०२४ तक पुनर्मुल्यांकन रिजर्व को प्रोडकर अन्य इविवटी १२३७.६७ लाख रुपये थी ।

अंदिक कमेरी द्वारा परिचाम की समीधा की गई और उनकी संस्तृति को गई तथा 14 करवरी, 2926 को आधोजित कानी संबंधित वैवक में निर्देशक मेंकत द्वारा अनुमंदित

U. P. HOTELS LIMITED

CIN: L55101DL1961PLC017307

Regd. Office: 1101, Surya Kiran, 19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001

Tel: 011-23722596-98

Email: clarkssuryakiran@yahco.co.in, Website: www.hotelclarks.com

EXTRACTS OF STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

5,521.87

2,277.39

2,277.39

1,704.22

1,709.40

540.00

31.56

31.56

विचा गया : कंपनी के वैचारिक लेखा परीक्षकों ने 3+ दिसंबर 2024 को समान्त तिमाही और नी महीनों के परिचानों की सीनित समीवा की है । लपनेक केंग्री (सुरीबद्धता विधाय और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनिधमन, 2016 के विनिधमन 35 के वहत करोक एक्सचेंज में दाशिक्त 31 दिसंबर, 2024 को समा तिसाही और नी महीनों के विशोध परिचामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। 31 दिसंबर, 2024 को कमाना तिमाही और नी महीनों के विशोध परिचामों का पूरा प्रारूप स्टीव

एक्सचेज की वेचलाइट www.bseindia.com. कंपनी की वेचलाइट www.mcili.net पर उपलब्ध है और इसे क्यूआर कोड रचीन करके भी एक्सेस किया जा सकता है।

ONTHS PERIOD ENDED 31st December. 2024

Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited

4,690.50

1,772.43

1,772.43

1,342.60

1,344.70

540.00

24.86

24.86

31.12.2024 30.09.2024 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023 31.03.2024

10,372.25

2,339.50

2,339.50

1,750.69

1,724.00

540.00

32.42

32.42

रूपान । नई दिल्ली दिनांक : 14 फरवरी, 2026



Quarter ended

2,724.57

158.25

158.25

118.42

125.56

540.00

2.19

2.19

प्रमोद खंते लवार (प्रबंध निदेशक) बीआईएन : 0012408

14,650.59

4,229.96

4,229.95

3,181.62

3,178.50

540.00

58.92

58.92

14,623.87

(Rs. in Lakh except earning per share)

Nine Months ended Year ended

9.840.62

2.452.30

2,452.30

1.861.85

1,859.10

540.00

34.48

34.48

(Joint Managing Directors)

LIPLEED

H1.0031HDL.H00043329

उज्जबल रचुवस, मुदर्शन खुबरा

जान राजिः ४.४2.11,858/- जिसमे

अस्ता स्वाभा

HL0031GDWL00001721 第

TEN W. 15, 35, 163/- UN 1997

ense were

HE.0031GDW1.00001533

№ 1000 1 126,83,675,00

फोट, उत्तर: सडक 15 फीट

दक्षिणः धर्माट संख्या एस-१५

बाम्पसल सिक्युरिटीज

वेबसाइटः www.bampslsecurities.co.in ईमेल आईडीः bampslsecurities@yahoo.co.in टेलीफोन नंबर: -011-47523613, सीआईएन.-L65100DL1995PLC065028

31 दिसम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही / नौमाही के अंकेक्षित वित्तीय परिणाामों का सार

विवरण		समाप्त तिमाही		समाप्त	वार्षिक	
144(-1	31.12.2024	30.09.2024	31.12,2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024
	अनंकेदित	अनंकेंद्दित	अनंकेदित	अनंकेंद्रित	अनंकेदित	अंकेंद्वित
कुल आग	665.87	513.24	111.53	1,854.40	803.60	902.24
शुद्ध ताष/(हानि) (कर अपवाद स्वरूप तथा/ अथवा असाधारण सामग्री से पूर्व)	126.76	7.75	16.15	141.73	6.94	49.05
शुद्ध ताम/(हानि) (कर अपवाद स्वरूप तथा/ अथवा असाधारण सामग्री से पश्चात)	126.76	7.75	16.15	141.73	6.94	49.05
शुद्ध ताभ / (हानि) कर पश्चात् (अपवाद स्वरूप तथा / अथवा असाधारण सामग्री से पश्चात्)	95.95	5.83	14.40	104,58	6.74	39.43
अवधि हेतु कुल योग गहन आय तथा अन्य गहन तथा पूर्ण आय (कर पश्चात्)	95.95	5.83	14.40	104.58	6.74	39.43
इक्विटी शेयर पूंजी	3,403.52	3,403.52	3,403.52	3,403.52	3,403.52	3,403.52
प्रतिशेवर आय (रुपये 10/– प्रत्येक)					i	
मूलभूव	0.282	0.017	0.042	0.307	0.020	0.116
दव	0.282	0.017	0.042	0.307	0.020	0.116

स्टॉक एक्सचेन्ज में प्रस्तुत किए गए विस्तुत वित्तीय परिणामों का सारांश है। वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.bampslsecurities.co.in पर भी उपलब्ध है। 2. उपरोक्त वित्तीय परिणाम की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और बाद में 14 फरवरी, 2025 को आयोजित बोर्ड की बैठक में

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। अनंकेक्षित परिणाम लेखापरीक्षकों की सीमित समीक्षा के अधीन है।

पूर्व अवधि के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक समझा गया, पुनर्समृहित और / या पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

दिनाकः 14.02.2025

nn रक्ष्म र किए की क्ष स्थानः नई दिल्ली

अनुसरण में 1 कंपनी का रजिस्टीकत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाधार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केंद्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंकित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली -110003 के

कंपनी अधिनियम, 2013 की घरा 13 की उप-धारा

केजरीवाल प्लाईवृद्धस प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय फ्लैट नंबर 41, भतल. ब्लॉक सी एंड डी, शालीमार बाग, हैदरपुर के पास, वाटरपंप, उत्तर पश्चिम, दिल्ली, भारत,

आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी कंन्द्रीय सरकार के समझ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आयेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से 'राजस्थान राज्य' में स्थानांतरित करने के 22 जनवरी, 2025 को आयोजित असाधारण आम

(www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर को इस सचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर पताः बी-2, विंग द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110 003, पते पर पंजीकृत ढाक द्वारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्न रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर्त पर भी

सी और डी. शालीमार बाग, हैदरपुर के पास, वाटरपंप, उत्तर पश्चिम, दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110033

हस्ता/-हितेश कुमार केजरीवाल तारीखः 15.02.2025 निदेशक स्थानः दिल्ली

पंजीकृत कार्यालय- 100-ए, साइकिल बाजार, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

- 10	isi (oitei 4)		FOR THE CHARTER & MINE M
माही	समाप्त वार्षिक		FOR THE QUARTER & NINE M
1.12.2023	31.03.2024	SI.	
अनंके दित	अंकेंदित	No.	Particulars
माही 1.12.2023 अनंके दिवा 803.60 6.94 6.74 6.74 8,403.52	902.24	0.000	000000000000000000000000000000000000000
माही 1.12.2023 अनंके दिवा 803.60 6.94 6.94 6.74 6.74	49.05	1	Total Income from Operations
100 × 100 ×		2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)
voncenso	49.05	3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)
6.74	39.43	4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)
	39.43	5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after ta
3,403.52	3,403.52		and other Comprehensive Income (after tax)]
		6	Equity Share Capital
0.020	0.116	7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)
SASSATISTAS S	0.116	8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) 1. Basic: 2. Diluted:

दर से अस्टिन्स ब्याज गहित

पुनर्भगतान तक

प्रत्य संख्या

HL0031GDWL00001721

५.१५,०७,७३७/- (रुपए चीदह लाख

छह हाता छह यो छतीस

मात्र)।७.३७% प्रति वर्ष की दर से

आंतरिक व्यान महित पुनर्पणतान

तक प्रण मंत्रव

HI.0031GDWL00001533

स.24,02,715/- (स्वये चीबीस

लाख दो हजार सात मी पटह

मात्र) 16.35% प्रति वर्ष की दर ने अतिरिक्त न्याज गरिज

पुनर्भयतान तकः

NOTES:-

बोर्ख की ओर से

हस्ता./-भीष्म कुमार गुप्ता

प्रबंध संचालक

(डीआईएनः 00110915)

1 The above results were reviewd by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 13" February, 2025. The same have also been subjected to Limited Review by the Statutory Auditors.

The above is an extract of the detailed format of Standalone financial results for the Quarter and Nine Months period ended 31" December, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterlyand Nine Months period results are available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and on the website of the Company at www.hotelclarks.com. The same can be accessed by scanning the QR FOR U. P. HOTELS LIMITED

Date: 13.02.2025 Place: New Delhi



APURV KUMAR RUPAK GUPTA DIN: 00043538

Chola

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिभिटेड **कॉपरिट कार्यालय** चोला क्रेस्ट, सी 54-55, सुपर बी-4,

विरु-वि-का इंजरिट्यत एस्टेट, गिंडी, चेन्नई-600 001, चंद्रीगढ शास्त्रः एसतीओ, 350-351-352, तीसरी मंजिल, सेक्टर-34-ए, चंद्रीगढ-160022 संपर्कः श्री चंद्र मोहन सिंह रावत, मोबाइल नंबर 8950045100 और श्री वरुग प्रताप वीहरा, मोबाइल. सं. 9056555002 सूचना (पूर्वानुमान के बिना)

 अलका मैसी, 2. विक्टर भट्टी, दोनों निवासी: पलैट सं. 302, ब्लॉक 1, सिल्को टावर्स, मिल्को इंटरनेशनल स्कल खरड, मोहाली, पंजाब 140301 दोनों यहां भी रहते हैं फ्लंट सं. आर-106, प्रथम तल, ब्लॉक एफ, गिल्को हाइट्स, खरड, एसएएस

 अलका मैसी, वहां भी रहते हैं: वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पीएचसी नंदपुर, कलीर फतेहगढ़ साहिब. पंजाब 140412

प्रिय महोदय / महोदया,

एतदहारा निम्नवत प्रस्तृत किया जाता है:

मुझे घोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इसका शाखा कार्यालय एस. सी. ओ. 350~351—352 3' मजिल, संक्टर 34ए, चंडीगढ़, के लिए सरफंसी अधिनियन, 2002 के तहरा बनाए गए प्रतिभृति हित (प्रवर्तन नियम) के नियम 2(ए) के तहत एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। कि आपने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से 26.50.000 / – रुपये । छन्नीस

लाख और पधास हजार रुपये मात्र] का होम इकिवटी (एलएपी) ऋण लिया है, जिसके लिए ऋण खाता संख्या HE01ClG00000051643 है और नियमित रूप से ईएमआई का भुगतान करने में विफल रहने पर आपके खाते को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिनांक 09.04.2024 को गैर निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कि सुरक्षित ऋणदाता से नियमित सूचना के बाद भी आप वकावा/लंबित वकावा रशि का भूगतान / समाधान करने में विफल रहे हैं, बकाया राशि का भूगतान करने में आपकी इस तरह की लापरवाही से व्यथित होकर, सुरक्षित ऋषदाता यानी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड काइनेंस कंपनी लिमिटेड ने गिरवी रखी गई संपत्तियों के मध्यम से वसूली के लिए सरफंसी कार्यवाही शुरू की थी और जिसके बदले में आपको सुरक्षित ऋगदाता द्वारा सरकेंसी अधिनियम की चार 13(2) और 13(4) के तहत नोटिस विए गए थे।

कि 08,07,2024 को प्रतीकात्मक करूजा मिलने के बाद, आपको जधारकर्ता और सह-उधारकर्ताओं सहित पंजीकृत डाक और प्रकाशन के माध्यम से विधिवत तामील की गई है।

 कि 'घोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड बनाम अतका मैसी और अन्य' शीर्षक वाले मामले में दिनांक 07.09.2024 के आदेशों के अनुसार मामला संख्या सीआरएम-1369-2024 में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एसएएस नगर मोहाली के न्यायालय के अनुसार ,सरकेसी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत सुरक्षित संपत्ति /बंधक संपत्ति का भौतिक कब्जा 12.11.2024 को लिया गया था। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि भौतिक कब्जे से पहले आपको भौतिक कब्जे का नोटिस विधिवत रूप से दिया गया है, जिसमें कब्जे के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पहले परिसर खाली करने का अनुरोध किया गया है।

 कि सरफेती अधिनियम के नियमों के अनुसार गिरवी रखी गई संपत्ति के घर को खाली करने के कई अनुरोधों के बाद भी, गिरवी रखी गई संपत्ति के भौतिक कब्जे के समय सुरक्षित संपत्ति के परिसर में कुछ चल घर के सामान पढ़े हुए थे। गिरबी रखी गई शंपत्ति का भौतिक कब्जा लेने कं समय विधिवत हस्ताक्षरित सूची तैयार की गई थी।

7 कि सुरक्षित ऋणदाता से नियमित सूचना के बाद भी आप बकाया / लंबित देय राशि का भूगतान/समाधान करने में विफल रहें हैं, बकाया भूगतान करने में आपकी इस तरह की लापखाही से व्यथित होकर, सुरक्षित ऋणदाता यानी चौलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने प्रतिमृतिकरण और वितीय परिसंपश्चिमं का पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम्, 2002, प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 [नियम 8 और 9) के तहत और तदनुसार नियमों और विनियमों का पालन करते हुए, सुरक्षित परिसंपत्ति / बंधक संपत्ति को नीलामी क्रेता को बेच दिया है।

कि इस नोटिस के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि सुरक्षित संपत्ति के कब्जे के समय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तैयार की गई सूची के अनुसार इस नोटिस को प्राप्त करने के 7 दिनों वं भीतर बंधक संपत्ति से अपने सभी सामान और वल वस्तुओं को इटा दें। कि आज तक सीआईएकसीएल बंधक संपत्ति में रखी यस्तुओं और सामान को संरक्षित करने के तिए सभी खर्च यहन कर रहा हैं। इस नोटिस को आपके सामान को हटाने की सूचना माना जाएगा, अन्यथा वित्त कंपनी उन सामानों को सार्वजनिक नीलामी हारा बेचने के लिए आगे बढ़ेगी।

आपसे अनुरोध है कि आप कार्य दिवसी के दौरान व्यावसायिक घटों में मुझसे (सीआईएफसीएल के अधिकृत अधिकारी) मिलें और इसके लिए समय-सारिणी तय करें।

दिवांक: 15.02.2025 अधिकृत अधिकारी-स्थानः चंडीगढ्/मोहाली मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

CONSOLIDATED

प्ररूप संख्या आईएनसी —26 [कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 वे

(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-शियम (5) के छांड (ए) के मामले में

बैठक में पारित विजेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रमावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल सकता या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र,

केंजरीवाल प्लाईव्डस प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः फ्लैट नंबर ४१, भूतल ब्लॉक

आवेदक के लिए और उसकी ओर से

ढीआई एन: 02848985

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies. associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an

advertisement in any

manner whatsoever.

ROLLATAINERS LIMITED

CIN No.: L21014HR1968PLC004844

Regd. Off.: PLOT NO. 73-74, PHASE- III, INDUSTRIAL AREA, DHARUHERA, DISTRICT- REWARI REWARI HR 123106 IN Tel: +91-0124-243326,242220; Email: cs.rollatainers@gmail.com: website: www.rollatainers.in

EXTRACT OF THE STATEMENT OF UN-AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

STANDALONE

FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON DECEMBER 31, 2024 Rupees in "Lakhs" except per share data

S.	Particulars	Quarter ended		Nine months ended Year E		Year Ended	ar Ended Quarter ended			Nine mon	Year Ended		
No.		31.12.2024 (Un-Audited)	30.09.2024 (Un-Audited)	31.12.2023 (Un-Audited)	31.12.2924 (Un-Audited)		31.03.2024 (Audited)	31.12.2024 (Un-Audited)	30.09.2024 (Un-Audited)	31.12.2023 (Un-Audited)	31.12.2024 (Un-Audited)	31.12.2023 (Un-Audited)	31.03.2024 (Audited)
1	Total Income from operations	0.32	10.00	32.76	25.41	83.29	117.60	18.29	0.00	52.56	23.38	141.89	196.95
2	Profit/(Loss) before share of profit /(Loss) of associates and joint venture, exceptianal items and tax	(6.53)	(18.71)	0.46	(54.39)	(22.52)	(21.69)	(18.41)	(50.59)	4.28	(127.50)	(36.64)	(196.72)
3	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(6.53)	(18.71)	0.46	(54.39)	(22.52)	(21.69)	(18.41)	(50.59)	4.28	(127.50)	(36.64)	(196.72)
4	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(6.53)	(18.71)	0.46	(54.39)	(22.52)	(21,69)	(18.41)	(50.59)	6.19	(171.88)	18.23	(138.26)
5	Net Profit for the period after tax from continuing business (after exceptional and/or extraordinary items)	(6.53)	(18.71)	0.46	(54.39)	(22.52)	(21.69)	(18.41)	(50.59)	6.19	(171.88)	18.23	(138.26)
6	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	(6.53)	(18.71)	0.46	(54.39)	(22.52)	(21.69)	(18.41)	(50.59)	(1,506.62)	(171.88)	(1,494.40)	(1,650.88)
7	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 1/- each)	2,501.30	2,501.30	2,501.30	2,501.30	2,501.30	2,501.30	2,501.30	2,501.30	2,501.30	2,501.30	2,501.30	2,501.30

(b) Diluted Notes to financial results:

Date: 13th February 2025

Place: New Delhi

(a) Basic

1 The above unaudited financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee on 13th February, 2025 and subsequently have been approved by the Board of Directors of the company at their

-0.01

-0.01

-0.01

-0.01

-0.01

-0.01

-0.02

-0.02

-0.66

-0.66

-0.06

-0.06

meeting held on 13th February, 2025. The statutory auditors have carried out Limited Review of the above financial results of the Company. 2 The Financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of

regulations of the SEBI (listing obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015 (as amended). 3 The above is an extract of the detailed format of the financial results for the Quarter and Nine months ended 31st December, 2024, filed with the Stock Exchange. The full format of the financial results for the Quarter

-0.02

-0.02

and Nine months ended 31st December, 2024 is available on the website of the company i.e. www.rollatainers.in and the website of BSE i.e. www.bseindia.com and website of NSE i.e www.nseindia.com. 4 The Un-audited Financial results can be accessed through QR Code.

8 Earnings per Share (Face Value of Re 1/ each) for continuing operations)




For Rollatainers Limited Sd/-Aarti Jain DIN: 00143244 Chairperson

-0.53

-0.53

(0.59)

(0.59)



-0.01

-0.01

0.00

0.00

0.00

0.00